

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बेलसंड

पत्रांक— 1369(अनु०)

दिनांक— 30/08/2025

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बेलसंड।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 एम.आर. कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय— MR (3054) under New Maintenance Policy- 2018 के क्रियान्वित पथों के भुगतान हेतु अधियाचना के संबंध में।

प्रसंग— भवदीय पत्रांक 113 अनु० दिनांक 10.01.2020

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि कार्यप्रमण्डल बेलसंड अन्तर्गत MR (3054) under New Maintenance Policy- 2018 योजना के पथ में पूर्ण कराये गये कार्यों का भुगतान हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

- अनु०— 1. अधियाचना विहित प्रपत्र में।
2. Recorder IRI की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति।

विश्वासभाजन

30/08/25
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, बेलसंड।

Form GFR 19- A

(See Government of India's Decision (I) below Rule - 150)
Form of Utilization Certificate upto the month of August 2025
New Maintenance Policy 2018

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in lacs)	Amount Received (in lacs)	Particulars
1	New Maintenance Policy 2018	Letter No 63 Dated 29.07.2025	8758.21818	Certified that out of RS 8758.21818 lacs of grants in aid sanctioned during the Years up to 2025-26 in favour of Executive Engineer, RWD Works Division Belsand under this Department, a sum of Rs 8733.06589 lacs has been utilized for the purpose of New_MR Scheme remaining 25.15229 unutilized at the end of the period under report.
		Total :	8758.21818	


Certified and verified myself that the conditions on which the grants in aid was sanctioned have been duly fulfilled / are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.


Kinds of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction material have been tested.
- Measurments have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer/Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

Physical Progress achieved :-

- Construction of Road works.
- Construction of CD works


D.A.O
RWD works Division
Belsand


Executive Engineer
RWD works Division
Belsand

Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road maintenance Policy 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Division : Beland

Sl. No	Package no.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lac)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in percentage	Previous Total allotted Amount (Lac)	up to date expenditure as per MIS (in Lac)	Requisition Against Work Done (in lac)	Remarks
					Length (in Km)	Amount (in Lac)	Initial Rectification with Surface Renewal (in lac)	5 years Routine Maintenance (in lac)										
1	RM/SI/BEL/24/0006	L104-NH77 To Beghi Tola (V.R99)	31608002069	6120 04.12.2023	1.770	83.83000	62.69474	15.36385	06 MIBD/2024-25 16/08/2024	15-05-2025	28-02-2025	3249.7	25mm	5%	61.19000	61.19000	0.37594	
2	RM/SI/BEL/24/0006	Madhopur Sultan Se Thabar Path	N316080002040	6120 04.12.2023	1.550	77.35000	54.40632	15.17185	06 MIBD/2024-25 16/08/2024	15-05-2025	21/02/2025	3256.1	25mm	5%	53.80000	53.80000	0.8445	
3	RM/SI/BEL/24/0006	DHOBHA - RUPALI	31608102059	6120 04.12.2023	3.400	199.32000	155.92954	27.87510	06 MIBD/2024-25 16/08/2024	15-05-2025	11/04/2025	3503.2	25mm	5%	150.21452	150.21452	3.60144	
4	RM/SI/BEL/24/0006	Runnaisaidpur prakhand ke banuman nagar mukhyamantri sarak se gisra P.M.G.S.Y sarak tak path nirmaan.	31608004001	6120 04.12.2023	1.020	71.55000	60.04938	4.6682	06 MIBD/2024-25 16/08/2024	15/05/2025	11/03/2025	3285	25mm	5%	55.14698	55.14698	4.19899	
5	RM/SI/BEL/24/0006	Gidha To Phulwariya	N316080001005	6120 04.12.2023	1.580	92.33000	74.79656	9.11615	06 MIBD/2024-25 16/08/2024	15/05/2025	14/03/2025	3363	25mm	5%	68.96067	68.96067	4.91344	

Divisional Accounts Officer
RWD Works Division
Beland

Executive Engineer
RWD Works Division
Beland

अधियाचना हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि NMP-2018 योजनान्तर्गत :-

1. पथ/पुल Rupnaisaidpur Prakhanda KE Mahayman Nayan में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. अद्यतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।

C.V. 29/08/25
कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा-कनीय

प्रमाणित
29/08/25
सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल-कनीय


29/08/25
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, बेलसंड

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
RWD WORKS DIVISION-BELSAND

Name of Scheme:- Runnisaidpur prakhand ke hanumaan nagar mukhyamantri sarak
se gisra P.M.G.S.Y sarak tak path nirmaan.


Project id - 31608004001

Certified that all item wise 100%
Measurement has been taken by Me


28/02/25
Junior Engineer

RWD Works Section Runi Saidapur

Certified that all item wise 50%
Measurement has been taken by Me


28/02/25
Assistant Engineer

RWD Works Sub Division Runi Saidapur

Certified that all item wise 10%
Measurement has been taken by Me


28/02/25
Executive Engineer

RWD Works Division Belсанд

Name of Customer :	Vijay Kumar Roushan
Name of Work/ Road :	gisra P.M.G.S.Y sarak tak path
Lab Job number :	36
Date :	28-02-2025
Section No. :	36

Test Date :	28-02-2025	Road Name :	M.G.S.Y sarak tak path nirmaan.
Machine No :	490	Road Type :	(R) RURAL ROAD
Start S No :	r prakhand ke	Side :	1
Start E No :	path nirmaan.	Interval	
Weather :	NORMAL	U/V Range :	1806 To 5000
Start Location :	0.00	Dist Range :	0 To 1.1
End Location :	1.02	Equation :	$Y = 0 * X^2 + 0.866 * X + 501.6$
			mm/km
			* 1000 m


Print

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\pc\Desktop\Runnisaaidpur prakhand ke hanumaan nagar mukhyamantri sarak se gisra P.M.G.S.Y
Name of Customer : Vijay Kumar Roushan. Name of Work/ Road : Runnisaaidpur prakhand ke hanumaan nagar



Name of Road:-Runnisaipur prakhand ke hanumaan nagar mukhyamantri sarak se gisra
P.M.G.S.Y sarak tak path nirmaan.

Name of Contractor:-Vijay Kumar Roushan

Length:-1.020 km

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event	
28/02/25	13:30:5	36	0.1	250	20.3	2500	2806 G		26.48262	85.47272	Normal	$Y = 0 * X^2 + 0.866 * X + 501.6$
28/02/25	13:31:25	36	0.1	370	30.3	3700	3693 G		26.48374	85.46835	Normal	$X = 3000$
28/02/25	13:31:0	36	0.1	280	30.3	2800	2853 G		26.48401	85.4669	Normal	$Y = 3099$
28/02/25	13:31:25	36	0.1	370	20.2	3700	3439 G		26.48394	85.46583	Normal	
28/02/25	13:31:58	36	0.1	280	30.3	2800	2926 G		26.48429	85.46454	Normal	(R) RURAL ROAD
28/02/25	13:32:15	36	0.1	340	10.5	3400	3559 G		26.48429	85.46454	Normal	Good
28/02/25	13:32:58	36	0.1	360	10.1	3600	3619 G		26.484	85.46584	Normal	Average
28/02/25	13:33:5	36	0.1	320	10.1	3200	3272 G		26.48398	85.46585	Normal	Poor
28/02/25	13:33:20	36	0.1	310	10.1	3100	3186 G		26.48405	85.465	Normal	
28/02/25	13:33:45	36	0.1	350	20.2	3500	3499 G		26.48436	85.46402	Normal	

IRI	32852
AVG IRI	3285 G

28/02/25
36

Sumat
28/02/25
36

28/02/25
36